



## भिन्नों का जोड़ (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{6}{9} + \frac{2}{9} =$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{6}{9} + \frac{1}{8} =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{3} =$$

$$\frac{4}{9} + \frac{2}{5} =$$

$$\frac{6}{7} + \frac{2}{6} =$$

$$\frac{5}{9} + 3\frac{1}{2} =$$

$$1\frac{2}{5} + \frac{1}{6} =$$

$$1\frac{1}{5} + 1\frac{1}{5} =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} =$$



## भिन्नों का जोड़ (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{6}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{9}{20}$$

$$\frac{6}{9} + \frac{1}{8} = \frac{19}{24}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{4}{9} + \frac{2}{5} = \frac{38}{45}$$

$$\frac{6}{7} + \frac{2}{6} = \frac{25}{21} = 1\frac{4}{21}$$

$$\frac{5}{9} + 3\frac{1}{2} = \frac{73}{18} = 4\frac{1}{18}$$

$$1\frac{2}{5} + \frac{1}{6} = \frac{47}{30} = 1\frac{17}{30}$$

$$1\frac{1}{5} + 1\frac{1}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{2}{3}$$